



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 श्रावण, 1941 (श०)

संख्या- 649 राँची, शुक्रवार,

9 अगस्त, 2019 (ई०)

उद्योग विभाग

अधिसूचना

16 जुलाई, 2019

विषय: झारखण्ड Procurement Policy-2014 में आंशिक संशोधन करने के संबंध में।

संख्या- 1342 /06/उ०नि०(विविध)/ Procurement Policy-68/2012-- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के हितों की सुरक्षा हेतु सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम विकास नियमावली-2006 के आलोक में झारखण्ड Procurement Policy-2014 के अधिसूचित होने के उपरान्त सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र की इकाइयों तथा औद्योगिक संघों से यह माँग की जाती रही है कि विभिन्न विभागों/निगम/नगर निगम/अधिसूचित क्षेत्रों इत्यादि के द्वारा जारी निविदा में अनेक बाध्यकारी शर्तों के जुड़े रहने के फलस्वरूप सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र की इकाइयों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है तथा निविदा प्रक्रिया के प्रथम चरण में ही तकनीकी दृष्टिकोण से अयोग्य करार कर दिये जाते हैं। ऐसी स्थिति में झारखण्ड Procurement Policy-2014 की मूल भावना स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के हितों की रक्षा हेतु यह आवश्यकता महसूस की गई है।

भारत सरकार के पत्रांक- F.No.25(2)/2011-MA दिनांक 14.10.2011 एवं No.22(1)/ 2003/ EP&M दिनांक-29.07.2003 के द्वारा प्रावधान किया गया है कि सामाग्रियों के क्रय करने संबंधी

निविदा में सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों (MSEs) के लिए न्यूनतम टर्न ओवर संबंधी बाध्यकारी शर्तों से मुक्त रखा जाय।

Procurement Policy-2014 की कंडिका-8.1 में पूर्व से प्रावधानित है कि Annexure-1 में वर्णित Exclusive Purchase list में निदेशक उद्योग, के द्वारा प्रत्येक वर्ष Revised एवं Notified किया जाएगा। औद्योगिक संघों के सुझावों एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्रों के साथ हुई बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर झारखण्ड Procurement Policy-2014 के Annexure-I में वर्णित Items Under Exclusive List में 35 अन्य Items को जोड़ने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 02.07.2019 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुरूप झारखण्ड Procurement Policy-2014 में निम्नवत आंशिक संशोधन/प्रतिस्थापन किया जाता है:-

1. (i). कंडिका-3 (iii) को निम्नांकित प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“The MSE Unit availing preferential treatment will give an undertaking with respect to (i) to (vi) above including a categorical statement that the product/services being supplied to Govt. Deptt. or it's agencies has been manufactured/created by the unit located in Jharkhand only, giving details of batch no./date or any other identifiable tag (GSI etc) as per prevalent established practice and will have to submit compulsorily duly signed copy of Form GSTR-9C (For units having aggregate yearly turnover of more than 2 crores) as prescribed under JGST Act-2017”. However, in case of VAT products/services, Form JVAT-409 (For units having of gross yearly turnover more than 60 lacs) issued by deptt. of Commercial taxes, Govt. of Jharkhand.

2. Annexure-I में वर्णित "Item under exclusive list reserved for Purchase from State Micro and Small Enterprises (MSEs) में विस्तार करते हुए Jharkhand Procurement Policy-2014 के Annexure-I में वर्णित 31 Items के अतिरिक्त निम्न 35 अतिरिक्त Items को Annexure-I में शामिल किया जाता है:-

- i. Sanitary Napkins /Towel.
- ii. Agriculture Pipes (Soft PVC Pipes)
- iii. Small Iron tools (Hammer, Shovel etc)
- iv. Manual Agriculture Tools
- v. Hand Gloves (Rubber)
- vi. Domestic Utensils all types
- vii. Pavers blocks
- viii. Conveyor belt
- ix. Leather Bags.
- x. Jute File Folders
- xi. Metal Handicraft
- xii. Road Marking(Thermoplastic)/Painted Road Marking
- xiii. Retro-reflective Signage.
- xiv. Moulded Plastic Goods (House hold/Construction items).
- xv. Boxes made of metal/Wood.
- xvi. Bolts/Nuts/Wire nail.
- xvii. Mosquitoes net/Quilt/Mattress/Pillow.
- xviii. Cotton/Jute/Rexin/Leather School Bags.
- xix. Corrugated paper board/Boxes.
- xx. Pickles/Chutney/Sauce/Papads/Spices/Culinary Spices (FSSAI Mark).
- xxi. Ready to Eat food/Cereal Flakes/Confectionary (FSSAI Mark).
- xxii. Bakery Products (FSSAI Mark)
- xxiii. Ice- Cream

- xxiv. Fortified Milk/Milk Products.
- xxv. Edible Oil.(FSSAI Mark)
- xxvi. Plastic/Metal Dustbins.
- xxvii. Disinfectants(House hold/Hospital)
- xxviii. UPS/Stabilizers/Battery Charger.
- xxix. Wooden Furniture/Boxes/Boards.
- xxx. Bamboo Products/ Lathies.
- xxxi. Paper conversion Product.
- xxxii. Cane basket.
- xxxiii. Bucket(Metal)
- xxxiv. Honey (FSSAI Mark)
- xxxv. Blanket/Carpet.

3. कंडिका-4 में अतिरिक्त कंडिका- (d) एवं (e) को निम्न प्रकार से सम्मिलित किया जाता है:-

कंडिका-4 (d) “It is mandatory for every department of the State Govt. or its agencies or aided institutions to purchase from local MSEs supplier on GeM portal of the items mentioned in exclusive list of Annexure-I and also ensure 20% procurement of the concerned year from local MSEs supplier on Gem Portal as per provisions of JPP-2014.

कंडिका-4 (e) Department of Industries in coordination with department of IT and E-Governance will encourage and facilitate MSEs of the State to register their products on GeM Portal.

4. कंडिका-10.1 में JIP-2012 Para-18.1(i),[ii(a,b,c)] की जगह JIIP-2016 Para 4.1 को प्रतिस्थापित किया जाता है।

5. कंडिका-10.3 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“While preparing comparative price statement for evaluation of tender paper, the VAT/SGST payable in Jharkhand state shall not be included in the quoted price or selling price. However, any tax payable outside Jharkhand shall be added to the quoted price and selling price for such price comparison”.

6. कंडिका-11(i) में अतिरिक्त उप कंडिका-11 (i) (e) को सम्मिलित किया जाता है:-

No minimum Annual Turn Over and work experience related tender conditions for working MSEs of Jharkhand State. (Without compromising on quality and specification of the product/service and department has complete right to decide on the quality and specification).

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार,
सरकार के सचिव ।
